

दिनांक 15 जुलाई, 2017 को प्रातः 11:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर के संयुक्त तत्वाधान में जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त व्यापारियों एवं उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के अनुश्रवण के लिये एवं बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं को शासन को सूचित करने के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। आयोजित सत्र के मुख्य-अतिथि श्री चंचल कुमार तिवारी, (आए.ए.एस.), अपर मुख्य सचिव (पंचायती राज), उ.प्र. तथा विशिष्ट-अतिथि श्री सुरेन्द्र सिंह, (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी, कानपुर नगर थे।

श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने सत्र के मुख्य अतिथि श्री चंचल कुमार तिवारी, (आए.ए.एस.), अपर मुख्य सचिव (पंचायती राज), श्री सुरेन्द्र सिंह, (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी, कानपुर नगर, विभिन्न व्यापारिक वर्गों के प्रतिनिधिगण तथा समस्त मीडिया कर्मियों का स्वागत किया एवं कहा कि GST प्रणाली एक सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली हो हमारी यही आशा रही है। श्री जैन ने कहा कि आज हम सभी लोगों के पास यह अवसर है कि GST लागू होने के पश्चात आ रही समस्याओं एवं उचित सुझावों को श्री चंचल कुमार तिवारी के समक्ष रखें, जिससे वह शासन स्तर पर इस समस्या को पहुंचा सकें।

श्री पी.के. मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जोन-प्रथम कानपुर, ने बताया कि GST प्रणाली ने पूरे देश को एक सिस्टम में बांधने का प्रयास किया है जिसमें हमें करों के दोहरीकरण एवं इंस्पेक्टर राज जैसी अन्य समस्याओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। श्री मिश्रा ने कहा कि शुरुआत में आप लोगों को माइग्रेशन एवं पंजीकरण में समस्या आ सकती है लेकिन धीरे-धीरे इसका भी निराकरण करने कि दिशा में हम अग्रसर हैं।

तत्पश्चात श्री बी.के. लाहोटी ने उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने आये हुए समस्त व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को अवसर देते हुए मंच पर बुलाया जिससे वह अपनी समस्या को रख सकें।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता श्री संतोष अग्रवाल ने GST में माइग्रेशन एवं पंजीकरण, हेल्पडेस्क में समस्या का निराकरण न मिलना, वस्तुओं के माल-भाड़ा में व्यापारियों को आने वाली समस्याओं, HSN Code, रियल स्टेट एवं अन्य मुख्य समस्याओं को श्रीमान चंचल तिवारी के समक्ष रखा।

श्री सुशील शर्मा ने IGST एवं E-Sugam के क्रियान्वन तथा मर्चेट्स चैम्बर से श्री प्रेम मनोहर गुप्ता ने GST में ITC एवा HSN Code पर विभाग से विस्तृत व्याख्यान माँगा। आल इंडिया सोप मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन से विक्की मनचंदा, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी से श्री नवल कपूर, लेदर उद्योग से मोहमद अब्बास, नौघड़ा कपड़ा कमिटी से श्री शेष नारायण त्रिवेदी ने ज्ञापन दिया।

होजरी क्लस्टर की ओर से श्री बलराम नरूला, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल से श्री विजय पाण्डे, सी.ए. अजय केडिया, कानपुर कपड़ा एसोसिएशन से श्री अमित गुलाटी, श्री जानेश मिश्रा, श्री ओम प्रकाश भटनानी, श्री राज कुमार गुप्ता, फीटा के जनरल सेक्रेटरी श्री उमंग अग्रवाल तथा अन्य व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या को साझा किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह, (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने सभी व्यापारिक वर्गों को उनका पक्ष रखने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत सरकार हमारे लिए नई GST प्रणाली को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। श्री सिंह कहा कि केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि GST प्रणाली से सम्बंधित

समस्याओं को सुनने एवं उसको GST Council तक पहुंचाने के लिए तीन स्तर पर अधिकारियों का चयन किया गया है। अधिकारियों को केन्द्र स्तर पर, दूसरा प्रदेश स्तर पर तथा तीसरा जिला स्तर पर नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने सूचित किया कि श्री चंचल कुमार तिवारी, (आए.ए.एस.), अपर मुख्य सचिव (पंचायती राज) को राज्य सरकार ने कानपुर जनपद के लिए नामित किया है जिससे वह व्यापारियों, उद्यमियों एवं अन्य वर्गों के लिए जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात आने वाली समस्याओं को संकलित करके अपनी रिपोर्ट शासन को दें, जिससे वे समस्याओं को GST Council में रख कर समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाए।

माननीय D.M. महोदय ने बताया कि कानपुर के व्यापारीगण अपनी समस्या **dmkp@gmail.com** या **dmkanpur@gmail.com** पर भेज सकते हैं और वह समस्या संकलित करके शासन को प्रेषित कि जायेंगी।

श्री चंचल कुमार तिवारी, (आए.ए.एस.), अपर मुख्य सचिव (पंचायती राज), उ.प्र. ने आश्वस्त किया कि उन्होंने मर्चेट्स चैम्बर द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगों की ओर से प्रस्तुत किये गए बिन्दुओं, विभिन्न व्यापारिक वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा साझा की गए समस्याओं एवं दिए गए ज्ञापनों को रख लिया है तथा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट किया है, जिसे वह शासन तक पहुंचाएंगे। और उचित समाधान आपको शीघ्र देखने को मिलेगा है।

सत्र का संचालन श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया।

सधन्यवाद,

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश